

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-मा/माध्य/शालादर्पण/60302/विद्यार्थी/2023

दिनांक

समस्त संस्थाप्रधान,
राजकीय विद्यालय राजस्थान।

विषय:- शालादर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु शालादर्पण कैलेण्डर सत्र 2023-24 जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संसाधनों यथा विद्यार्थी, विद्यालय तथा कार्मिक की ऑनलाईन सूचना "शालादर्पण पोर्टल" पर उपलब्ध है। शालादर्पण पर यह सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालयों/कार्मिकों/विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा समीक्षा हेतु शालादर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कतिपय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि में विलम्ब/लापरवाही के कारण विद्यार्थी/विद्यालय/कार्मिकों से संबंधित समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिदिन/प्रतिमाह/त्रैमासिक आधार पर करणीय कार्य/प्रविष्टियों बाबत निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में पत्र के साथ शालादर्पण कैलेण्डर सत्र 2023-24 जारी कर समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कैलेण्डर में निर्देशित कार्यों को समयानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।
संलग्न:- शालादर्पण कैलेण्डर

(कानाराम)

I.A.S

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक मा. शिक्षा मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राज.सरकार जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक मा. शिक्षा राज्य मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राज.सरकार जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति0 आयुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 7 प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
- 8 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
- 9 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारंभिक।

Signature valid

Digitally signed by Kanar Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 15:23:19 IST
Reason: Approved



- 10 समस्त सीबीईओ एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा को प्रति देकर लेख है कि ब्लॉक स्तरीय शालादर्पण बैठक एजेंडा में शामिल करते हुए प्रभावी प्रबोधन करें।
- 11 उपनिदेशक, शालदर्पण प्रकोष्ठ जयपुर।
- 12 सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 13 वरिष्ठ संपादन, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 14 स्टॉफ आफिसर, कार्यालय हाजा।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(कानाराम)
I.A.S
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 17:23:19 IST
Reason: Approved



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-मा/माध्य/शालादर्पण/60302/विद्यार्थी/2023

दिनांक

शाला दर्पण कैलेंडर सत्र (2023-24)

आवश्यक निर्देश:-

1. शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह तथा त्रैमासिक किये जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शालादर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. विशेष परिस्थितियों में शालादर्पण कैलेंडर में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
3. शाला दर्पण कैलेंडर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संस्थाप्रधान, शालादर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय-समय पर शालादर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकतानुसार व विद्यालय में दिये गये प्रभाग अनुसार शालादर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।

शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य		
क्र सं	कार्य का विवरण	शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी/कार्मिक
1	STAFF DAILY ATTENDENCE मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति	कार्यालय प्रभारी
2	LEAVE APPROVAL मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना।	
3	STUDENT DAILY ATTENDENCE मॉड्यूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति	

शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य		
क्र सं	कार्य का विवरण	शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी/कार्मिक
1	STUDENT MONTHLY ATTENDENCE मॉड्यूल में विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि	कक्षाध्यापक/शाला दर्पण प्रभारी
2	स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शालादर्पण पोर्टल प्रपत्र-3A (LOCK STAFF DETAIL)का मिलान(1 से 5 तारीख के मध्य)	कार्यालय प्रभारी
3	DEWORMING INFORMATION की प्रविष्टि	शाला दर्पण प्रभारी
4	MONTHLY WIPS AND BLUE-PINK TABLET INFORMATION की प्रविष्टि	
5	प्रतिमाह आयोजित एसडीएमसी/एसएमसी बैठक सूचना प्रविष्टि	एसडीएमसी/एसएमसी प्रभारी
6	छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमाह प्रथम सप्ताह	कक्षाध्यापक

Signature valid

Digitally signed by Karan Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 15:23:19 IST
Reason: Approved



शालादर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल)		
क्र सं.	कार्य का विवरण	शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी/कार्मिक
1	SDMC/SMC module में School development and Management Committee quarterly data entry की प्रविष्टि पूर्ण करना।	SDMC/SMC प्रभारी
2	कार्मिकों के प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान कर आवश्यकतानुसार अद्यतन करना।	कार्यालय प्रभारी
3	विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाना।	
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच/सत्यापन आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाना।	
5	शालादर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हैड का आईएफएमएस से मिलान किया जाना।	

माह	शालादर्पण पोर्टल पर माहवार किये जाने वाले कार्य	शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी/कार्मिक
जुलाई	1. प्रतिमाह/त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. एसडीएमसी/एसएमसी मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच एवं अद्यतन किया जाना।	एसडीएमसी/एसएमसी प्रभारी
	3. NEW ADMISSION ENTRY में नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि।	कक्षाध्यापक/शाला दर्पण प्रभारी
	4. STUDENT DETAIL EDIT (FORMAT - 05) के द्वारा विद्यार्थी संबंधित सूचना में संशोधन किया जाना।	
	5. प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना।	
	6. विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्नलिखित सब-मॉड्यूल में प्रविष्टि किया जाना। <ul style="list-style-type: none"> o Section Allotment/Updation, o Medium Allotment/Updation, o Class/Section wise Roll No Entry o Optional Subject, o Third Language o Aadhar&Janadhar Entry o Student Details (Format-9) 	
	7. नव प्रवेशित/एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र-07 प्रपत्र-07(अ) व प्रपत्र-9 की पूर्ति करना तथा पूर्व छात्रों के प्रपत्र-9 के बिन्दु संख्या 07 important information को अपडेट करना।	
	8. FREE TEXT BOOKS and WORK BOOKS Module में प्रविष्टि।	
	9. पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि व प्रमाण पत्र GENRATE करना।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी
	10. विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल से प्रविष्टि।	छात्रवृत्ति प्रभारी
	11. कक्षाध्यापक व विषयाध्यापक मैपिंग की प्रविष्टि।	कार्यालय प्रभारी
	12. निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना।	कक्षाध्यापक व निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी

Signature valid

Digitally signed by Karan Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 15:23:19 IST
Reason: Approved



	13.पीईईओ/यूसीईईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना की प्रविष्टि।	पीईईओ/यूसीईईओ
अगस्त	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. नव प्रवेशित/एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र-07 प्रपत्र-07(अ) व प्रपत्र-9 की पूर्ति करना।	कक्षाध्यापक
	3. विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल से प्रविष्टि।	छात्रवृत्ति प्रभारी
	4. विद्यार्थियों को रोल नं आवंटित करना व प्रथम परख के प्राप्तांकों की प्रविष्टि।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी
	5. निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना।	कक्षाध्यापक व निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी।
	6. FTBमॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना।	FTB प्रभारी
	7. बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि(RKSMBK)	संबंधित प्रभारी
सितम्बर	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल से प्रविष्टि।	छात्रवृत्ति प्रभारी
	3. बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का एसआर रजिस्टर से मिलान।	बोर्ड परीक्षा प्रभारी
	4. FTBमॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना।	FTB प्रभारी
	5. SA 1/RKSMBK 1 की प्रविष्टि	संबंधित प्रभारी / कक्षाध्यापक
अक्टूबर	1. प्रतिमाह/त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. FTBमॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना।	FTB प्रभारी
	3. द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी / कक्षाध्यापक
	4. हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि	संबंधित प्रभारी
नवम्बर	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
दिसम्बर	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंको की प्रविष्टि	स्थानीय परीक्षा प्रभारी
जनवरी	1. प्रतिमाह/त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकतानुसार अपडेट करना।	कार्यालय प्रभारी
	3. अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंको की प्रविष्टि करना।	कक्षाध्यापक / कक्षाध्यापक
	4. एसडीएमसी/एसएमसी मॉड्यूल की प्रविष्टियों की जांच व अद्यतन किया जाना।	एसडीएमसी/एसएमसी प्रभारी
	5. SA 2/ RKSMBK 2 की प्रविष्टि, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि	संबंधित प्रभारी / कक्षाध्यापक

Signature valid

Digitally signed by Karan Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 15:23:19 IST
Reason: Approved



फरवरी	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. बोर्ड परीक्षा के सत्रांको की प्रविष्टि करना।	बोर्ड परीक्षा प्रभारी
	3. तृतीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी / कक्षाध्यापक
	4. TEACHER EXAMINAR DATA MAPPING MODULE में प्रविष्टि करना।	कार्यालय प्रभारी
मार्च	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. TEACHER EXAMINAR DATA MAPPING MODULE में प्रविष्टि की जांच।	कार्यालय प्रभारी
	3. बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA 3/ RKSMBK 3 की प्रविष्टि, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि	संबंधित प्रभारी / कक्षाध्यापक
अप्रैल	1. प्रतिमाह / त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. वार्षिक परीक्षा के अंको की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी / कक्षाध्यापक
	3. वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना व विद्यार्थियों की अंक तालिका शाला दर्पण से डाउनलोड करना।	
मई	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी
	3. पूरक परीक्षा परिणाम के अंको की प्रविष्टि।	स्थानीय परीक्षा प्रभारी
जून	1. प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य।	संबंधित प्रभारीगण
	2. बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना।	बोर्ड परीक्षा प्रभारी
	3 पीईईओ/यूसीईईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना की प्रविष्टि	पीईईओ/यूसीईईओ

शालादर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से किये जाने वाले कार्य		
क्र सं.	कार्य का विवरण	शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी/कार्मिक
1	विद्यार्थी मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार/ऑन डिमांड किये जाने वाले कार्य। <ul style="list-style-type: none"> ○ Transfer Certificate (T.C.) ○ Student Character Certificate ○ Student Study Certificate ○ N.S.O ○ Vocational Edu ○ Faculty and Subject mapping (format 7 & 7a) 	कक्षाध्यापक
2	विद्यार्थियों के जनआधार/आधार नम्बर अपडेट करना।	कक्षाध्यापक

Signature valid

Digitally signed by Karan Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 15:23:19 IST
Reason: Approved



3	विद्यालय मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार/ऑन डिमांड किये जाने वाले कार्य । <ul style="list-style-type: none">○ Garima Petika Entry○ Udaan○ Student Health Check-up○ Gender Audit Details Entry○ Sports○ Mid-Day-Meal	कार्यालय प्रभारी
---	--	------------------

- नोट:-** 1. समस्त संस्थाप्रधान को यह निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2022-23 के कक्षोन्नति सहित समस्त लंबित कार्य दिनांक 28.06.2023 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. समस्त संस्थाप्रधान किसी कार्मिक के स्थानान्तरण, पदोन्नति, सेवा समाप्ति, अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने, अन्य विभाग में चयन होने पर, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति एवं अन्य कारणों से विभाग छोड़कर जाने की स्थिति में प्राप्त आदेशों की तत्काल पालना करते हुए प्रपत्र-10 में अपडेट करावें।

(कानाराम)

I.A.S

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.26 16:23:19 IST
Reason: Approved

